

Action Research and Training for Health (ARTH), Udaipur

आवश्यकता

पद: ब्लॉक प्रशिक्षक व उत्प्रेरक

एक्शन रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर हेल्थ (अर्थ) जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर वर्ष 1997 से कार्य कर रही एक गैर-सरकारी संस्था है। संस्था उदयपुर आधारित है तथा जनस्वास्थ्य के मुद्दों पर दक्षिणी राजस्थान में सक्रिय है। समय-समय पर राज्य के अन्य भागों में भी संस्था ने स्वास्थ्य के विषयों पर कार्य करती आई है। कोरोना वैश्विक महामारी के समुदाय स्तर पर प्रबंधन के लिए संस्था दक्षिणी राजस्थान में परियोजना शुरू करने जा रही है, जिसके लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की आवश्यकता है।

संस्था ब्लॉक प्रशिक्षक व उत्प्रेरक पद के लिए इच्छुक व दक्ष उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करती है। वे संस्था की आगामी परियोजना के क्षेत्र के अंतर्गत चयनित ब्लॉक में परियोजना की गतिविधियों को लागू करने का कार्यभार रहेगा। वे परियोजना की पहुंच को पूर्ण ब्लॉक में पहुंचाने और लागू करने के जिम्मेदार होंगे। इस हेतु वे समुदाय में ऊर्जावान युवक व युवतियाँ जो स्वयंसेवकों के रूप में योगदान देना चाहते हों, परियोजना से जोड़ेंगे। वे स्वयंसेवकों की मदद से क्षेत्र में परियोजना की गतिविधियाँ लागू करेंगे।

ब्लॉक प्रशिक्षक व उत्प्रेरक को कार्यस्थल (गोगुन्दा/ झाड़ोल फलासिया/ बड़गांव/ कम्भलगढ़/खमनोर) के चयनित गाँव (पदस्तापन) में रहना अनिवार्य होगा। ब्लॉक प्रशिक्षक व उत्प्रेरक की जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए निम्न कौशल आवश्यक होंगे:

- समुदाय की व स्थानीय मुद्दों की समझ
- व्यवहार कुशलता
- टीम के साथ समन्वय स्थापित लक्षित कार्यों को पूर्ण करना
- समयबद्ध तरीके से व प्राथमिकता अनुसार गतिविधियाँ लागू करवाना
- समस्या के सुलझाने की क्षमता
- लिखित व मौखिक संवाद में कुशलता
- समुदाय में अहम् सदस्यों व संगठनों के साथ समन्वय व संवाद स्थापित करना
- स्मार्टफोन इस्तेमाल से अवगत होना व स्वयं के पास उपलब्ध होना

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव: स्नातक या 12 वीं पास व क्षेत्रीय कार्यों में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव

आवेदन की अंतिम तिथि: 10 जुलाई 2021

आवेदन ईमेल द्वारा भेजें: hr@arth.in